

कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा – WHS कानूनों के तहत कर्तव्य

कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के आदर्श कानून नियोक्ताओं के लिए यह आवश्यक बनाते हैं कि वे कार्यस्थल पर लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की देखरेख करें। इसमें शामिल है:

- एक ऐसा कार्य परिसर प्रदान करना जो स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए खतरे से मुक्त हो
- कर्मचारियों को अपना काम करने के लिए उनके कल्याण के लिए पर्याप्त एवं सुलभ सुविधाएँ प्रदान करना, और
- बीमारी या चोट की रोकथाम करने के लिए कर्मचारियों के स्वास्थ्य और कार्यस्थल की स्थितियों पर नज़र रखनी।

कर्मचारियों के प्रति कर्तव्य

अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को सुनिश्चित करना आपका कर्तव्य है। आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप COVID-19 की चपेट में आने के खतरे को दूर करें, या यदि ऐसा करना संभव न हो, तो आपके लिए यह ज़रूरी है कि जितना संभव हो खतरे को कम से कम करें।

कर्मचारियों को COVID-19 की चपेट में आने के खतरे से सुरक्षा प्रदान करें, जैसे कि:

- घर से काम करने के प्रबंध लागू करके
- कर्मचारियों के लिए शारीरिक दूरी तथा बढ़िया स्वच्छता को अमल में लाना आवश्यक बनाकर
- यदि कर्मचारी बीमार हों तो उनके लिए घर पर रहना आवश्यक बनाकर, तथा
- कार्यस्थल की नियमित तौर पर और पूरी तरह साफ-सफाई करनी।

कार्यस्थल में अन्य लोगों के प्रति कर्तव्य

आपके लिए यह ज़रूरी है कि आपके व्यापार का कार्य उपभोक्ताओं, ग्राहकों और विज़िटर्स जैसे अन्य लोगों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को खतरे में नहीं डालता है।

अन्य लोगों को COVID-19 की चपेट में आने के खतरे से सुरक्षित करें, जैसे कि, उनके लिए निम्नलिखित काम आवश्यक बनाकर:

- शारीरिक दूरी को अमल में लाना, इसमें संपर्क-रहित डिलीवरियों और भुगतानों के माध्यम से ऐसा करना शामिल है
- बढ़िया स्वच्छता को अमल में लाना, और
- कार्यस्थल से दूर रहना, बशर्ते कि ऐसा करना अत्यावश्यक न हो

कार्यस्थल और सुविधाओं को बनाए रखने के प्रति कर्तव्य

आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने कार्यस्थल की संभाल करके रखें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य परिसर कर्मचारियों और अन्य लोगों को COVID-19 के संक्रमण के खतरे में नहीं डालता है।

सुरक्षित कार्य परिसर बनाए रखें, निम्नलिखित करके ऐसा करें:

- कार्यस्थल की नियमित तौर पर और पूरी तरह साफ-सफाई करके
- कार्यस्थल के लेआउट को बदलकर, ताकि शारीरिक दूरी बनाई जा सके, और
- कार्यस्थल में लोगों की संख्या को सीमित करके।

आपके लिए यह भी आवश्यक है कि आप अपने कार्यस्थल में पर्याप्त सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएँ जिनमें शामिल हैं:

- साबुन, पानी और पेपर टॉवल के साथ हाथ धोने की सुविधाएँ
- हैंड सैनीटाइज़र, जहाँ कर्मचारियों के लिए अपने हाथ धोने संभव न हों, और
- स्टॉफ़ रूम जो साफ हों और शारीरिक दूरी बनाने की योग्यता देते हों।

कर्मचारियों को सुविधाओं का प्रयोग करने के लिए नियमित तौर पर ब्रेक देनी, विशेषकर अपने हाथ धोने के लिए।

सूचना, प्रशिक्षण, निर्देश और निगरानी प्रदान करने के प्रति कर्तव्य

आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप अपने कर्मचारियों को ऐसी जानकारी या प्रशिक्षण प्रदान करें जो उन्हें उनके काम में COVID-19 की चपेट में आने के खतरे से सुरक्षा देने के लिए आवश्यक हो।

इसमें शामिल हो सकता है:

- ठीक ढंग से हाथ धोने से सम्बन्धित दिशा-निर्देश
- इस बारे में प्रशिक्षण कि किन्हीं आवश्यक व्यक्तिगत सुरक्षात्मक उपकरण कैसे पहनें और इनका प्रयोग कैसे करें
- इस बारे में प्रशिक्षण कि साफ-सफाए कैसे और कब करें
- घर में सुरक्षित कार्यस्थल सेट अप करने से सम्बन्धित निर्देश, और
- यदि बीमार हों तो घर से काम करने से सम्बन्धित निर्देश।

सलाह-मशवरा करने के प्रति कर्तव्य

आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप COVID-19 से सम्बन्धित स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मामलों पर कर्मचारियों से सलाह-मशवरा करें और कर्मचारियों को अपने विचार और चिंताएँ व्यक्त करने के अवसर दें। उनके विचारों पर ध्यान दें और कर्मचारियों को सलाह-मशवरे के परिणाम के बारे में सूचित करें।

निम्नलिखित परिस्थितियों में कर्मचारियों के साथ सलाह-मशवरा करें:

- खतरा आकलन का आयोजन करते समय
- खतरों का प्रबंध करने के लिए नियंत्रण उपायों से सम्बन्धित फैसले लें, जैसे कि घर से काम करने के प्रबंध शुरू करने, या कार्यस्थल को सीमित करना ताकि शारीरिक दूरी सुनिश्चित की जा सके
- कार्यस्थल से सम्बन्धित सुविधाओं के बारे में फैसले लेना, और
- ऐसे अन्य बदलावों का प्रस्ताव करना जो कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा को प्रभावित कर सकते हों।



आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप किन्हीं सहमत परामर्शी कार्यविधियों का अनुपालन करें। यदि स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रतिनिधि उपलब्ध हों, तो आपके लिए यह ज़रूरी है कि आप उन्हें सलाह-मशवरे में शामिल करें।

और अधिक जानकारी

COVID-19 और कार्य स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के बारे में और अधिक जानकारी के लिए, [Safe Work Australia की वेबसाइट](#) देखें।